

17.08.2023

**To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38
Symbol: DHAMPURSUG**

**The General Manager – DSC
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai: 400001
Tel No.022-22722039/37/3121
Security Code: 500119**

Dear Sir,

Subject: Submission of Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of Business Standard (English and Hindi Edition) dated 17th August, 2023 wherein Notice of 88th Annual General Meeting of the Company, Intimation of Book Closure and Notice of e-voting of the Company.

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz., www.dhampusugar.com

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

For Dhampur Sugar Mills Limited

**Aparna Goel
Company Secretary
M. No. 22787**

The Singareni Collieries Company Limited
(A Government Company)
Regd. Office: KOTHAGUDEM - 507101, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE

Tenders have been published for the following Services / Material Procurement through e-procurement platform. For details, please visit <https://tender.telangana.gov.in> -- or -- <https://www.scolines.com>

NIT/Enquiry No. Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s)

E152300157- Procurement of 32MM FLC Winding Rope for KGM Area- 25.08.2023-17:00 Hrs.

E092300153- Procurement of Ordinary Portland Cement through tender cum reverse auction for use at Kothagudem, Ramagundam and Bellampalli Regions - 28.08.2023-17:00 Hrs.

E122300152- Hiring of Preweigh bin loading system at Yellandu railway siding, Yellandu Area for a period of 5 years - 29.08.2023-17:00 Hrs.

E192300164- Hiring of 4 (Four) Nos. of Highly Skilled Persons for working at F&A Dept., Marketing Dept. and Purchase Dept., Singareni Bhavan, SCCL, Hyderabad for a period of 2 (Two) years under Unit Rate System-31.08.2023-17:00 Hrs.

E192300163- Hiring of 2 Nos. of 500KVA, 3-Phase, 440V Diesel Generator Sets for a period of 6 months for Naini Coal Mine of Naini Area of SCCL - 31.08.2023-17:00 Hrs.

General Manager (Material Procurement)

NIT/Enquiry No. Description / Subject / Estimated Contract Value - Last date and time.

CRP/CVL/BPA/TN-26/2023-24 DL 07.08.2023 Maintenance of Goleti CHP Siding (MSCA) served by - Asifabad Road Railway Station on Khasipet- Ballarsha Section of SC Railways for Two years period i.e., 2023-24 & 2024-25 in Bellampalli Area, Kurnambhram-Asifabad Dist., Telangana State Rs. 63.26.508/- - 21.08.2023-05.30 PM.

CRP/CVL/BHP/TN-27/2023-24 DL 09.08.2023 Design, construction, testing and commissioning of 2 No. 750 KLD Sewage Treatment Plants based on Forced Bed Aerated Constructed Wetland Technology (1 no. at Model colony and 1 no. at Ramappa colony) including comprehensive Operation & Maintenance for a period of 5 years (after successful trial run of 2 months) on EPC basis at Bhupalipalli area, Jayashankar Bhupalipalli Dist., Telangana State. EPC Mode tender - 06.09.2023-4.30 PM.

CRP/CVL/RG/TN-28/2023-24 DL 10.08.2023 -Repairs to RCC columns and steel columns at GDK.1 CSP and RCC bunker of GDK.2A incline and Manway and Main Incline beams at GDK.1 incline in RG-1 area, Godavarkani, Peddapalli Dist., Telangana State Rs. 70.31.006/- - 25.08.2023-4.30 PM.

CRP/CVL/RG/TN-29/2023-24 DL 11.08.2023 - Design, construction, testing, commissioning of 2 Nos Rapid Gravity Filter plants each of 20 MLD capacity & 15 MLD capacity using sand as filter media including all Civil, Mechanical, Electrical & Instrumental accessories and other infrastructural facilities such as interconnecting pipelines, laboratory building etc., duly complying with relevant IS codes in the design of plant components including trial run for 90 days and comprehensive operation & maintenance of plants for a period of five years near GDK.1 incline fan house at RG-1 Area, Godavarkani, Peddapalli Dist., Telangana State. 02.09.2023-4.30 PM.

General Manager (Civil)

PR/2023-24/ADVT/MP/CVL/37 **DIPR R.O. No. : 510-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2023-24**

HB ESTATE DEVELOPERS LIMITED
CIN: L99999HR1994PLC034146
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
Ph. : + 91-124-4675500, Fax No. : + 91-124-4370985
E-mail : corporate@hbestate.com, Website : www.hbestate.com

INFORMATION REGARDING 29TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Dear Members,

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the members of **HB Estate Developers Limited** ("the Company") will be held on **Friday, 22nd September, 2023 at 12:00 Noon** through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 03/2022 dated 05th May, 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide the facility of attending AGM through VC/OAVM, Remote e-voting before AGM and e-voting during AGM.

In compliance with the aforesaid Circular(s), the Notice of the 29th AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 will be sent only through electronic mode to all those members, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.hbestate.com, on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited, at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the business set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address with the Company, will be provided in the Notice of AGM.

Members who have not registered their e-mail address with the Company / Depository Participant(s) are requested to register the same as per Instructions given below:

Physical Holding	Members are requested to register/update their e-mail addresses by sending a request letter to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private Limited through an e-mail at investor.hb@rcmcdelhi.com , mentioning Folio No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2022-23.
Demat Holding	Please update e-mail address / Bank Account Details with your Depository Participant(s) (DPs).

For HB Estate Developers Limited
Sd/-
RADHIKA KHURANA
(Company Secretary)
M. No.: A-32557

Date : 16th August, 2023
Place : Gurugram

Personal Finance, Insight Out



Personal Finance, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED
CIN: L65910HR1982PLC034071
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
Ph. : + 91-124-4675500, Fax No. : + 91-124-4370985
E-mail : corporate@hbleasing.com, Website : www.hbleasing.com

INFORMATION REGARDING 40TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Dear Members,

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of **HB Leasing and Finance Company Limited** ("the Company") will be held on **Friday, 22nd September, 2023 at 03:00 P.M.** through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 03/2022 dated 05th May, 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide the facility of attending AGM through VC/OAVM, Remote e-voting before AGM and e-voting during AGM.

In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 40th AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent only through electronic mode to those members, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will be available on the website of the Company at www.hbleasing.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the business set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address with the Company, will be provided in the Notice of AGM.

Members who have not registered their e-mail address with the Company / Depository Participant(s) are requested to register the same as per Instructions given below:

Physical Holding	Members are requested to register/update their e-mail addresses by sending a request letter to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private Limited through an e-mail at investor.hb@rcmcdelhi.com , mentioning Folio No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2022-23.
Demat Holding	Please update e-mail address / Bank Account Details with your Depository Participant(s) (DPs).

For HB Leasing and Finance Company Limited
Sd/-
SONALI SHARMA
(Company Secretary)
M. No.: ACS-59728

Date : 16th August, 2023
Place : Gurugram

SHIVAKAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Corporate Identity Number: U45200KA2008PTC046956
Regd. Office: No. 24, Langford Garden, Richmond Town, Bangalore - 560 025
Email: cocs@shivakardevelopers.com, Tel: 91-8041343400

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2023
(Amount in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Qtr. ended 30.06.2023 (Unaudited)	Qtr. ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1.	Total Income from Operations	4,488.73	4,153.75	34,186.07
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2,426.41)	(2,719.36)	8,524.76
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2,426.41)	(2,719.36)	8,524.76
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2,426.41)	(2,719.36)	15,540.36
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2,426.41)	(2,719.36)	15,540.36
6.	Paid up Equity Share Capital	15,000.00	15,000.00	15,000.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(2,152.15)	(17,985.45)	274.26
8.	Securities Premium Account	-	-	-
9.	Net worth	(59,521.82)	(2,985.45)	15,274.26
10.	Paid up Debt Capital	60,838.54	53,340.11	53,521.88
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12.	Debt Equity Ratio	4.57	(25.13)	3.67
13.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10/-) (for continuing and discontinued operations)-			
1. Basic:		(1.62)	(1.81)	10.36
2. Diluted:		(1.62)	(1.81)	10.36
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15.	Debtenture Redemption Reserve	-	-	-
16.	Debt Service Coverage Ratio	0.05	(0.20)	1.86
17.	Interest Service Coverage Ratio	0.05	(0.20)	1.86

Notes: (a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results are available on the website of the Bombay Stock Exchange. (b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on the website of BSE - www.bseindia.com.

For Shivakar Developers Private Limited
Sd/- **B M Jayeshankar**, Managing Director DIN: 00745118

SHIVAKAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Corporate Identity Number: U45200KA2008PTC046956
Regd. Office: No. 24, Langford Garden, Richmond Town, Bangalore - 560 025
Email: cocs@shivakardevelopers.com, Tel: 91-8041343400

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2023
(Amount in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Qtr. ended 30.06.2023 (Unaudited)	Qtr. ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1.	Total Income from Operations	-	NA	776.32
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(114.08)	NA	(271.63)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(114.08)	NA	(271.63)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(114.08)	NA	(271.63)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(114.08)	NA	(271.63)
6.	Paid up Equity Share Capital	1.00	NA	1.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	753.10	NA	867.18
8.	Securities Premium Account	-	NA	-
9.	Net worth	754.10	NA	868.18
10.	Paid up Debt Capital	11,468.50	NA	9,516.79
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	NA	-
12.	Debt Equity Ratio	14.49	NA	9.05
13.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10/-) (for continuing and discontinued operations)-			
1. Basic:		(0.01)	NA	(0.03)
2. Diluted:		(0.01)	NA	(0.03)
14.	Capital Redemption Reserve	-	NA	-
15.	Debtenture Redemption Reserve	-	NA	-
16.	Debt Service Coverage Ratio	-	NA	-
17.	Interest Service Coverage Ratio	(0.04)	NA	(0.11)

Notes: (a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results are available on the website of the Bombay Stock Exchange. (b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on the website of BSE - www.bseindia.com.

For Shivakar Developers Private Limited
Sd/- **B M Jayeshankar**, Director DIN: 00745118

SCHEDULE I FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF "TRX TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED"

SL.NO	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of Corporate Person	TRX TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of Corporate Person	24/07/2007
3.	Authority under which corporate person incorporated / Registered	ROC - BANGALORE
4.	Corporate Identity Number / Limited Liability Identity Number of Corporate Person	U72200KA2007FTC043453
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate person	REGISTERED OFFICE: 65/2, LAUREL 'B' BLOCK, 5TH FLOOR, BAGMANE TECH PARK, CV RAMAN NAGAR, BYRASANDRA BANGALORE, KA 560093 IN
6.	Liquidation commencement date of corporate person	14th August, 2023
7.	Name, Office Address, Email Address, Telephone Number and the registration number of the liquidator	CS Nithya Pasupathy Old No: 28 (New No: 10), 3 rd Cross Street, R.K. Nagar, Raja Annamalai Puram, Chennai, Tamil Nadu 600028, Email: nithya@prowliscorporate.com Telephone No. 9566033007 (REG NO. IBB/1/PA-002/1P-NO0911/2020-2021/13144)
8.	Last date for submission of claims	13th September, 2023

Notice is hereby given that the **TRX TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED** has commenced voluntary liquidation on 14th August, 2023. The stakeholders of **TRX TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED** are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before **13th September, 2023** to the liquidator at the address mentioned against item 7. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Name and Signature of the Liquidator:
CS Nithya Pasupathy
REG NO. IBB/1/PA-002/1P-NO0911/2020-2021/13144
Place: Bangalore

Date: 17.08.2023

SIGACHI INDUSTRIES LIMITED
229/1 & 90, KALYAN'S TULSIRAM CHAMBERS, MADINAGUDA, HYDERABAD - 500049, TELANGANA
CIN: L24110TG1989PLC009497

Form PAS-1
[Pursuant to section 27(1) and rule 7(2) of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014]
Advertisement giving details of notice of special resolution for varying the terms of any contract referred to in the prospectus or altering the objects for which the prospectus was issued
Corporate Identification Number (CIN) -L24110TG1989PLC009497
Name of the company- Sigachi Industries Limited
Registered office address- 229/1 & 90, Kalyan's Tulsiram Chambers, Madinaguda, Hyderabad - 500049-Telangana

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that by a resolution dated 10.08.2023, the Board has proposed to vary the terms of the contract referred to in the prospectus dated 08.11.2021 (or to alter the object(s) for which the prospectus dated 08.11.2021 was issued) issued in connection with issue of upto 76,95,000 Equity Shares at an issue price of Rs. 163/- per share aggregating to Rs. 12,54,285 Lacs

In pursuance of the said resolution, further notice is given that for approving the said proposition, a special resolution is to be passed by the Shareholders in the Annual General Meeting.

The details regarding such variation/alteration are as follows:-

- Particulars of the terms of the contract to be varied (or objects to be altered)- To vary the location of one of the projects envisaged in the Objects of the Public Issue referred to in the Prospectus dated 22.10.2021
- Particulars of the proposed variation/alteration- relocation of the CCS (Crosamellose Sodium) project from Kurnool (Andhra Pradesh) to Dahej (Gujarat)
- Reasons/justification for the variation-

- Administrative / Operational Convenience: Dahej offers a more favourable administrative and operational environment, which may include smoother regulatory processes and better infrastructure, making it easier to run the CCS project efficiently.
- Easy Accessibility of Raw Materials: Dahej's proximity to easily accessible sources of raw materials is beneficial for the CCS project, leading to cost savings and improved operational efficiency. The presence of a convenient seaport can further facilitate imports and exports.
- Special Economic Zone (SEZ) Location: Being in an SEZ location can provide additional advantages, including ease of import and export, potentially reducing hurdles and enhancing international trade opportunities.
- Interchange / Transfer of Resources: The presence of existing manufacturing facilities of the Company in the vicinity of Dahej, involved in related activities, can enable resource interchange and transfer, leading to synergies and improved overall project efficiency.
- Good Business Prospects: Dahej's favorable market opportunities and demand for CCS products, possibly due to a larger presence of business operations and increasing demand for carbon capture technologies, make it an attractive location for the project.
- Complex Expient Manufacturing Facilities: Dahej's suitability for setting up complex expient manufacturing facilities is a crucial factor as it can significantly contribute to the CCS project's success or benefit related industries.

- Effect of the proposed variation/alteration on the financial position of the company- There is no effect on the financial position of the company.
- Major Risk factors pertaining to the new Objects- Since there is no change in the amount earmarked as well as nature of the manufacture, there are no further risk factors pertaining to the relocation of the CCS project at Dahej, Gujarat except the risk factors as mentioned in the Prospectus.
- Names of Directors who voted against the proposed variation/alteration - Nil
- Any interested person may obtain the copy of the special resolution along with the explanatory statement free of charge at the registered office of the company or at the office of its Company Secretary Ms. Shreya Mitra at 229/1 & 90, Kalyan's Tulsiram Chambers, Madinaguda, Hyderabad - 500049, Telangana or visit the website of the company viz. www.sigachi.com for a copy of the same.

For Sigachi Industries Limited
Sd/- **Shreya Mitra**
Place: Hyderabad Company Secretary and Compliance Officer

Date: 16.08.2023

ARNOLD INDUSTRIES LIMITED
Corporate Identity Number: U45200KA2008PTC046956
Regd. Office: No. 24, Langford Garden, Richmond Town, Bangalore - 560 025
Email: control@arnoldindustries.com, Tel: 91-8041343400

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2023
(Amount in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Qtr. ended 30.06.2023 (Unaudited)	Qtr. ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1.	Total Income from Operations	0.02	NA	1.29
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(53.50)	NA	(43.95)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(53.50)	NA	(43.95)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(53.50)	NA	(43.95)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(53.50)	NA	(43.95)
6.	Paid up Equity Share Capital	4.00	NA	4.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(0.00)	NA	(83.11)
8.	Securities Premium Account	-	NA	-
9.	Net worth	(132.62)	NA	(79.11)
10.	Paid up Debt Capital	32,199.87	NA	19,198.27
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	NA	-
12.	Debt Equity Ratio	(242.34)	NA	(240.80)
13.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10/-) (for continuing and discontinued operations)-			
1. Basic:		(0.00)	NA	(0.00)
2. Diluted:		(0.00)	NA	(0.00)
14.	Capital Redemption Reserve	-	NA	-
15.	Debtenture Redemption Reserve	-	NA	-
16.	Debt Service Coverage Ratio	-	NA	-
17.	Interest Service Coverage Ratio	(0.38)	NA	(0.03)

Notes: (a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results are available on the website of the Bombay Stock Exchange. (b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on the website of BSE - www.bseindia.com.

For Arnold Industries Limited
Sd/- **B M Jayeshankar**, Director DIN: 00745118

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED
Regd. Office: Dhampur, Distt. Bijnor-246761, U.P
Corp. Office: 6th Floor, Max House, Okhla Phase-III, New Delhi-110020
CIN: L15249UP1933PLC000511, Ph: 011- 41259400
Email Id: investordesks@dhamपुरsugar.com
Website: www.dhamपुरsugar.com

NOTICE OF 88TH ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **88th Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of Dhampur Sugar Mills Limited ("the Company") will be held through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Tuesday, 12th September, 2023, at 02.00 PM (IST)**. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., Dhampur, District Bijnor-246761 (U.P.).

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules thereunder; provisions of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated Jan 13, 2021, 02/2022 dated May 5, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023.

In compliance with the above mentioned provisions and circulars, the Notice of AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2023 have been e-mailed to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company or M/s. Alankit Assignments Limited ("RTA") and Depository Participant(s) ("DPs"). The electronic dispatch of Notice of AGM and Annual Report to Members has been completed on 16th August, 2023. The Notice of the AGM and Annual Report are also available on the website of the Company i.e., www.dhamपुरsugar.com, website of Stock Exchanges i.e., at BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com). The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection upon login at NSDL e-voting system at <https://www.evoting.nsdl.com>. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 has been dispensed with pursuant to the aforesaid MCA/ SEBI Circulars.

Instructions for Remote E-voting and E-voting during the AGM:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard - 2, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on Tuesday, 5th September, 2023 (cut-off date), shall cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories at the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in Notice of 88th AGM will be transacted through voting by electronic means only.
- The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, 5th September, 2023 (cut-off date).
- The remote e-voting period will commence on Saturday, 9th September, 2023 at 09.00 A.M. and ends on Monday, 11th September, 2023 at 05.00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 05.00 pm on Monday, 11th September, 2023. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.
- The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;
- Members who have acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date are requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and Password for casting the vote.
- Members attending the AGM who have

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय-01, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3 और 4 खोड़ी ब्लॉक, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता-700 064

निविदा की सूचना
यूको बैंक निम्नलिखित मद के लिए निविदा आमंत्रित करता है :-
जेम पोर्टल के माध्यम से विनिमय आई टी अनुप्रयोगों को अनुकूलन गतिविधि करने हेतु सेवा प्रदाताओं की ऑनबोर्डिंग (पुनः निविदा)।
किसी भी विवरण के लिए कृपया <https://www.ucobank.com> अथवा <https://gem.gov.in> वेबसाइट पर देखें।
(उप-महाप्रबंधक)
दिनांक : 17.08.2023 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड
CIN: L65910HR1982PLC034071
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एरलाइन इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, फैक्स नं. : +91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbleasing.com, वेबसाइट : www.hbleasing.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित 40वीं वार्षिक साामान्य बैठक के संबंध में सूचना

प्रिय सदस्यगण,
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एचबी लीजिंग ऐंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 को दोपहर 03.00 बजे, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दाखिले और प्रकटीकरण अधिनियम) विनियमवली, 2015 (संक्षेप सूचीबद्ध विनियमवली) के लागू प्रावधानों एवं तदनुसार विरचित नियमों के साथ पठित कारपोरेट मंत्रालय ("एमपीए") द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अगस्त, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अगस्त, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 22/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांकित 06 मई, 2022 और परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित 28 फरवरी, 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (संक्षेप) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सं.1/एचबी/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या सं.1/एचबी/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सं.1/एचबी/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 तथा परिपत्र संख्या सं.1/एचबी/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 (एतदप्रयत्न सामूहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय पक्ष पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंटों को रूप में नेशनल सिच्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं अनुमोदित की हैं।

उपरोक्त परिपत्र(ओं) के अनुपालन में, 40वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीबद्ध/उपलब्ध है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.hbleasing.com पर एक्सेस/वेबसेज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होंगे।

सदस्यों को एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मौखिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों द्वारा तथा जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाया था है, उनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु विकल्प प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसका पंजीकरण नीचे दिए अनुदेशों के अनुसार करवा लें।

मौखिक धारण सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 प्राप्त करने के उपरान्त हेतु एक अनुरोध अपने फोन/मोबाई नंबर, शेयरधारक नाम के उल्लेख के साथ शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन प्रति (फोटो और बैक), बैंक कार्ड की स्व-स्वीकृत स्कैन प्रति तथा कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पता प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज नामतः आर.कॉड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट अथवा उपयोगिता बिल की स्व-स्वीकृत स्कैन प्रति सहित कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्रार प्राइवेट लिमिटेड के पास investor.hb@rcmcdelh1.com पर ई-मेल के माध्यम से भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करवाएं।

कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड द्वारा, /- सोनली शर्मा (कम्पनी सचिव) M.No.: ACS-59728

तिथि : 16 अगस्त, 2023 स्थान : गुरुग्राम

एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड
CIN: L99999HR1994PLC034146
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एरलाइन इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, फैक्स नं. : +91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbestate.com, वेबसाइट : www.hbestate.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 को दोपहर 12.00 बजे, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दाखिले और प्रकटीकरण अधिनियम) विनियमवली, 2015 (संक्षेप सूचीबद्ध विनियमवली) के लागू प्रावधानों एवं तदनुसार विरचित नियमों के साथ पठित कारपोरेट मंत्रालय ("एमपीए") द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अगस्त, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 2/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांकित 06 मई, 2022 और परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित 28 फरवरी, 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (संक्षेप) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सं.1/एचबी/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या सं.1/एचबी/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सं.1/एचबी/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 तथा परिपत्र संख्या सं.1/एचबी/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 (एतदप्रयत्न सामूहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय पक्ष पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंटों को रूप में नेशनल सिच्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं अनुमोदित की हैं।

उपरोक्त परिपत्र(ओं) के अनुपालन में, 29वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीबद्ध/उपलब्ध है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.hbestate.com पर एक्सेस/वेबसेज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होंगे।

सदस्यों को एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मौखिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों द्वारा तथा जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाया था है, उनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु विकल्प प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसका पंजीकरण नीचे दिए अनुदेशों के अनुसार करवा लें।

मौखिक धारण सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 प्राप्त करने के उपरान्त हेतु एक अनुरोध अपने फोन/मोबाई नंबर, शेयरधारक नाम के उल्लेख के साथ शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन प्रति (फोटो और बैक), बैंक कार्ड की स्व-स्वीकृत स्कैन प्रति तथा कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पता प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज नामतः आर.कॉड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट अथवा उपयोगिता बिल की स्व-स्वीकृत स्कैन प्रति सहित कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्रार प्राइवेट लिमिटेड के पास investor.hb@rcmcdelh1.com पर ई-मेल के माध्यम से भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करवाएं।

कृते एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा, /- राधिका सुखाना (कम्पनी सचिव) M.No.: A-32557

तिथि : 16 अगस्त, 2023 स्थान : गुरुग्राम

4314 Form No. 3
249723 (See Regulation-15 (1) (a) / 16(3))
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudhama-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.: OA/21/2023
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Ex. No. 9770

HDFC BANK VS CHETAN GRAH UDHYOG
To, (1) Chetan Grah Udhog S/o Through Its Proprietor Dinesh Puri Goswami, Village-Khurdia, Falna Pal, Rajasthan-306116
(2) Dinesh Puri Goswami S/o Bhagwan Puri Goswami, Chetan Grah Udhog, Moti Vass, Khudal, Falna Pal, Rajasthan
(3) Chetan Puri S/o Dinesh Puri, 7867, Moti Vass Khudal Falna Pal, Rajasthan.

SUMMONS
WHEREAS, OA/21/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 18.07.2023. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (O.A.) filed against you for Recovery of Debts of Rs. 400,423/- (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 08.11.2023 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 20.07.2023. Assistant Registrar, (Seal) Debts Recovery Tribunal, Jaipur

4260 Form No. 3
20/2723 (See Regulation-15 (1) (a) / 16(3))
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudhama-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.: OA/154/2023
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Ex. No. 9752

HDFC BANK vs MS NEW DHKAR BUILDING MATERIAL TO, (1) Ms New Dhakar Building Material Through Proprietor Lila Shankar Dhakar At Vignay Nagar Milkhar Road Grain Market, Begun Chittauragar Rajasthan-312023. (2) Lila Shankar Dhakar S/o Panna Lal Ms New Dhakar Building Material 178, Mukhya Gram Shadi Teshil-begun Chittauragar Rajasthan -312023. (3) Mukesh Kumar Dhakar S/o Lila Shankar Dhakar, 178, Mukhya Gram Shadi, Teshil Begun Chittauragar, Rajasthan.

SUMMONS
WHEREAS, OA/154/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 14.06.2023. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (O.A.) filed against you for Recovery of Debts of Rs. 2927867/- (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 17.07.2023 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 10.07.2023. Assistant Registrar, (Seal) Debts Recovery Tribunal, Jaipur

4260 Form No. 3
20/2723 (See Regulation-15 (1) (a) / 16(3))
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudhama-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.: OA/154/2023
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Ex. No. 9752

HDFC BANK vs MS NEW DHKAR BUILDING MATERIAL TO, (1) Ms New Dhakar Building Material Through Proprietor Lila Shankar Dhakar At Vignay Nagar Milkhar Road Grain Market, Begun Chittauragar Rajasthan-312023. (2) Lila Shankar Dhakar S/o Panna Lal Ms New Dhakar Building Material 178, Mukhya Gram Shadi Teshil-begun Chittauragar Rajasthan -312023. (3) Mukesh Kumar Dhakar S/o Lila Shankar Dhakar, 178, Mukhya Gram Shadi, Teshil Begun Chittauragar, Rajasthan.

SUMMONS
WHEREAS, OA/154/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 14.06.2023. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (O.A.) filed against you for Recovery of Debts of Rs. 2927867/- (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 17.07.2023 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 10.07.2023. Assistant Registrar, (Seal) Debts Recovery Tribunal, Jaipur

Indiabulls Commercial Credit Limited (CIN: U65923DL2006PLC150632)	
Financial Results for the quarter ended June 30, 2023	
Additional Information in Compliance with the provisions of Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	
Particulars	As on June 30, 2023
1 Debt Equity Ratio (Loan Funds / Own Funds)	1.28
2 Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC
3 Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC
4 Outstanding Redeemable Preference Shares (quantity and value)	N.A.
5 Capital Redemption Reserve (Rs. in Crores)	4.00
6 Debenture Redemption Reserve (Rs. in Crores)	8.36
7 Net worth (Rs. in Crores)	5,459.32
8 Net Profit after Tax (EPS. in Crores)	121.13
9 Earnings per Share (EPS) - Basic and Diluted (Amount in Rs.)	4.89
10 Current Ratio	Not Applicable, being an NBFC
11 Long term debt to working capital	Not Applicable, being an NBFC
12 Bad debts to Account receivable ratio	Not Applicable, being an NBFC
13 Current liability ratio	Not Applicable, being an NBFC
14 Total debts to total assets (Debt Securities + Borrowings (Other than Debt Securities) + Subordinated liabilities) / Total Assets	0.53
15 Debtors turnover	Not Applicable, being an NBFC
16 Inventory turnover	Not Applicable, being an NBFC
17 Operating Margin	Not Applicable, being an NBFC
18 Net profit Margin (Profit after tax / Total Income)	48.76%
As on Quarter ended 30 June 2023	
19 Sector specific equivalent ratios, as applicable	
A % of Gross Non Performing Assets (Gross NPA / Loan Book)	2.57%
% of Net Non Performing Assets (Net NPA / Loan Book)	1.63%
C Capital to risk-weighted assets ratio (Calculated as per RBI guidelines)	51.21%
D Liquidity Coverage Ratio (%) for Q1 FY 24	237%

यूको बैंक UCO BANK
शाखा कार्यालय: बहादुरगढ़ शाखा (2429)

[नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)
कृषि, अधोहस्ताक्षरी यूको बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(12) के सहायित नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मैंमंंग सूचना जारी करते हुए कर्जदारों को सूचना में उल्लिखित देय राशि उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की गई है।

कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, कर्जदार और आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(4) के सहायित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस (नियम) वार्गित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गर्जदार और आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेनदेन यूको बैंक, देय रूप से उस पर ब्याज और प्रमार्गों के साथ प्राप्तिओं को घटाकर, यदि कोई हो, प्रत्येक खातों के विरुद्ध और यदि उधारकर्ता(ओं) गार्जदार(री) ने बकाया राशि का भुगतान नहीं करा है तो बैंक के बकाया की कसौटी के लिए संपत्ति/यों अधिनियम के तहत निर्धारित रूप से बेचा जाएगा

कर्जदार और/या गार्जदार का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर अधिकारित किया जाता है।

शाखा का नाम	खाता धारक का नाम उधारकर्ताओं/गर्जदारों	संपत्तियों का विवरण	सूचना की राशि	मांग सूचना जारी होने की दिनांक	कब्जे की दिनांक
बहादुरगढ़ शाखा (2429)	सुनिल पुत्र श्री जय भवान म.सं. 1013, विकास नगर, लाईन पार, गली सं. 10 बहादुरगढ़	न्यायसंगत बंधक आवासीय मकान सुनिल पुत्र श्री जय भवान के नाम , म. सं. 101, विकासनगर, लाईन पार, गली 10 बहादुरगढ़	₹ 7,98,030.40/-	13.05.2021	16.08.2023

सं. 10 बहादुरगढ़, मापक 30 फर्मांग, स्थित म. सं. 1013, विकासनगर, लाईन पार, म.सं. 101, बहादुरगढ़ का संपूर्ण व स्वयंप्रमाण भाग और सीमांकन प्रकार : उत्तर : 22'-06" रेणु का माकन और सविता, दक्षिण : 12'-00" गली, पूर्व : 12'-00" अन्य का प्लॉट, पश्चिम : 12'-00" स्वाति का प्लॉट

दिनांक : 16.08.2023 स्थान : बहादुरगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

महिन्द्रा रूरल हाऊसिंग फाईनैस लिमिटेड
कारपोरेट कार्यालय: महिन्द्रा रूरल हाऊसिंग फाईनैस लि. महिन्द्रा हाऊस. दूरसू. 22, 570, पी.बी. मार्ग वली, मुंबई-400018, भारत. फोन: +91 22 66523500 फैक्स: +91 22 24972741
आरओ ऑफिस/सबकन खाता कार्यालय: दूरसू. हाट, बाकोडा एच.एच. पॉस्ट नं. सीबी-162, सेक्टर डी-1, एनडीए कालोनी, तिहड़ पुर, हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-220012
मेरठ शाखा कार्यालय: तीसरा ताल, 14-141 मंगल चौक नगर, सीएसईए प्रवर्तित के सामने, मेरठ, उत्तर प्रदेश-280002

(अचल संपत्ति हेतु) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के तहत)
जबकि, मेसर्स महिन्द्रा रूरल हाऊसिंग फाईनैस लि. (यहां आगे "एमआरएफएफएल" कहा गया है), पंजीकृत कार्यालय स्थित लखनऊ और शाखा कार्यालय मेरठ के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आसितियों के प्रतिभूति हित एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्राय 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की गई जिसमें आप कर्जदारों (नाम और पते नीचे उल्लिखित हैं) से उक्त सूचना में उल्लिखित राशि को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

उपरोक्त कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदारों और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का मौखिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को यह स्पष्ट उल्लिखित कर्जदारों और सामान्य रूप से सर्व जन को उक्त संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है। संपत्ति का कोई भी लेन-देन राशि और/या इस पर ब्याज के अंतर्गत महिन्द्रा रूरल हाऊसिंग फाईनैस लि. के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार(ओं)/ जमानतदार(ओं) के नाम	प्रत्याभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तारीख और राशि	सांकेतिक कब्जे की तारीख
1.	(LC No.: 931706 मेरठ शाखा) शाहजाद सादत, उमर आलम (सह-कर्जदार) पता: 22/1, ऊँचा सददीक नगर, तिरसारी रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002	खसरा नं. 3059 टॉपर कालोनी, स्थान नगर, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश-250002 सीमाएं: पूर्व: अन्य के प्लॉट, पश्चिम: अन्य के प्लॉट, उत्तर: रास्ता 16 फुट चौड़ा, दक्षिण: अन्य के प्लॉट	13.08.2021 ₹. 1513595/-	08.12.2023 (मौखिक कब्जा)
2.	(LC No.: 1183038 मेरठ शाखा) नसीम (कर्जदार) पता: समर गाँव मेन 60 फुटा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002	आवासीय प्लॉट नं. 3115/12, 3116, 3117, 3105, 3147, 3148/3 शालीमार गाँव (निजाम एनक्लेव), मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002 सीमाएं: पूर्व: तादुनदौली का मकान, पश्चिम: अन्य के प्लॉट, उत्तर: रास्ता 20 फुट चौड़ा, दक्षिण: फिनुददीन का मकान	13.08.2021 ₹. 945357/-	08.12.2023 (मौखिक कब्जा)

स्थान: मेरठ दिनांक: 17.08.2023 महिन्द्रा रूरल हाऊसिंग फाईनैस लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वार्षिक बैंक)

ई-नीलामी सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन अधिनियम) 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय की सार्वजनिक सूचना

अधोहस्ताक्षरकों ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सर्मोपेक्षित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगार्थ निम्नलिखित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। उपरोक्त को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशियों की वसूली करने के लिए निम्न वर्णित प्रदाता में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) का आयोजन यहां नीचे निर्धारितानुसार तिथि पर "जेसी डी हाई अयावर" एवं "जेसी डी जो डी अयावर" पर किया जायेगा।

क्र. सं.	क्रय खाता संख्या	मूल उपभारणार्थ सह-उधारकर्ता/गर्जदार के नाम	13-2 सूचना की तिथि</
----------	------------------	--	----------------------